

# जनपद गाजियाबाद प्रेस नोट दिनांक 13.06.2021

## थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद की पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 45 पक्का देशी शराब नाजायज सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित शराब माफियाओ के के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में ,श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 45 पक्का देशी शराब नाजायज सहित गिरफ्तार किया ।

दिनांक 12.06.2021 को समय 22.00 बजे गस्त व चैकिंग के दौरान महमूदपुर बम्बा , निकट गौशाला से एक अभियुक्त हरीश पुत्र धनीराम नि0 ग्राम महमूदपुर थाना टीला मोड़ गा0बाद एक प्लास्टिक कट्टे में 45 पक्के देशी शराब शिल्पी तनु मसालेदार देशी शराब (उ0प्र0) नाजायज बरामद हुई । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 345/21 धारा 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया ।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

हरीश पुत्र धनीराम नि0 ग्राम महमूदपुर थाना टीला मोड़ गा0बाद

### अभियुक्त से बरामदगी –

45 पक्के देशी शराब शिल्पी तनु मसालेदार देशी शराब (उ0प्र0)

### अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1.मु0अ0सं0 345/21 धारा 60 आब0 अधि0 थाना टीला मोड़ गा0बाद  
अभियुक्त के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।



## थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद की पुलिस द्वारा गैंगस्टर के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित शराब माफियाओ के के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में ,श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा दिनांक 12.6.2021 को समय 18.30 बजे अभियुक्त के आवास सैफीनगर कस्बा गजरौला से गैंगस्टर के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

मौहम्मद शोएब पुत्र मौहम्मद अस्लम नि0 सैफीनगर कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा उम्र 28 वर्ष

### अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1.मु0अ0सं0 166/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना टीला मोड़ गा0बाद  
2.मु0अ0सं0 96/21 धारा 379/411 भादवि थाना टीला मोड़ गा0बाद  
3.मु0अ0सं0 308/21 धारा 379 भादवि थाना साहिबाबाद  
अभियुक्त के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।



## **थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से 40 पच्चे देशी शराब बरामद**

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व चोरों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद के नेतृत्व में दिनांक 12.06.2021 को समय 22.20 बजे थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा शराब ठेके के पास महाराजपुर से मुखविर की सूचना पर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 40 पच्चे देशी शराब बरामद किये गये।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

**1. फरदीन पुत्र शौकत नि0 उस्मान चौधरी के मकान मे किराये दार डासना थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष बरामदगी का विवरण -**

1. 40 पच्चे देशी शराब

सम्बन्धित मु0अ0स0 346/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना लिंकरोड गाजियाबाद

### **अभि0 का अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग का विवरण -**

1. मु0अ0स0 346/2021 धारा 60 आब0अधि0 थाना लिंकरोड गाजियाबाद



## **थाना लोनी बोर्डर क्षेत्र में हुई बुजुर्ग दंपति की सनसनीखेज हत्या की घटना का सफल अनावरण । हत्यारोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

दिनांक 11.06.21 को थाना लोनी बोर्डर क्षेत्र बलरामनगर में एक बुजुर्ग दंपति श्री सुरेन्द्र सिंह उम्र लगभग 70 वर्ष तथा इनकी पत्नी श्रीमती सन्तोष उम्र लगभग 63 वर्ष की अपने घर पर हुई हत्या के सम्बन्ध में उनके पुत्र रवि ढाका द्वारा थाना पर तहरीर दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 497/21 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना के अनावरण हेतु श्रीमान उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित पाठक के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अलग-अलग टीम जिसमें स्वाट टीम एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय की सर्विलांस टीम एवं थाना प्रभारी लोनी बोर्डर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। थाना लोनी बोर्डर पुलिस एवं गठित टीमों द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतक दंपति के पुत्र अभि0/मुकदमा वादी रवि ढाका पुत्र स्वर्गीय सुरेन्द्र सिंह निवासी D-80/A बलराम नगर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद को आज दिनांक 13.06.21 को बलरामनगर कट से गिरफ्तार किया गया।

### **पूछताछ का विवरण:**

अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभि0 द्वारा जुर्म का इकबाल करते हुए बताया गया कि मैंने अपने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। जिससे मेरे माता-पिता नाराज थे तथा अपनी सम्पत्ति को मेरे छोटे भाई स्व0 गौरव ढाका की पत्नी एवं बच्चों के नाम करना चाहते थे। इस बात को लेकर घर में क्लेश रहता था। मैं नहीं चाहता था कि मुझे सम्पत्ति से बेदखल किया जाये एवं सम्पत्ति का पूरा हिस्सा मेरे छोटे भाई स्व0 गौरव ढाका की पत्नी एवं उसके बच्चों को मिले। मेरे माता-पिता का लगाव मेरे छोटे भाई की पत्नी व बच्चों से अधिक था। पैसे भी मेरे छोटे भाई की पत्नी व उसके बच्चों को देते थे। मैं काफी उपेक्षित महसूस करता था। जिससे मेरे अन्दर गुस्सा बढ़ता गया। इसी बात को लेकर मैं काफी दिनों से अपने माता-पिता की हत्या की तलाश में था। दिनांक 11.06.21 को घर पर कोई नहीं था मेरे छोटे भाई की पत्नी व मेरी पत्नी अपने बच्चों को लेकर अपने-

अपने मायके गयी हुई थी। मुझे हत्या करने का मौका मिल गया था। मैंने अपने माता-पिता की गला घोटकर हत्या कर दी थी और घर का सामान अस्त-व्यस्त कर दिया था जिससे ऐसा लगे कि किसी ने लूट के उद्देश्य से हत्या की है और मेरा नाम प्रकाश में ना आये।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1- रवि ढाका पुत्र स्वर्गीय सुरेन्द्र सिंह निवासी D-80/A बलराम नगर थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद

### अभियुक्तरवि ढाका का आपराधिक इतिहास:-

1- मु0अ0सं0 497/2021 धारा 302 भादवि थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद।

### अभियुक्त रवि ढाका से बरामदगी का विवरण-

हत्या में प्रयुक्त अंगोछा एवं तार, 15 हजार रुपये नकद एवं 05 लाख की फिक्सड डिपोजिट के कागजात



## थाना लोनी पुलिस द्वारा एक वाहन चोर गिरफ्तार दिल्ली से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद

श्री अमित पाठक पुलिस उप महा-निरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा चोरी जैसे अपराध कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान रात्रि में बंधला फ्लाईओवर के पास से अभियुक्त पंकज पुत्र राजपाल निवासी बंधला फाटक लोनी को चोरी की एक मोटरसाइकिल नंबर dl4s सीसी 0488 होंडा सहित गिरफ्तार किया गया है यह मोटरसाइकिल लगभग 6 माह पूर्व कृष्णा नगर दिल्ली से चोरी की गई थी जिसके संबंध में दिल्ली के ई पुलिस स्टेशन कृष्णा नगर में मुकदमा दर्ज है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण एवं आपराधिक इतिहास -

1- पंकज पुत्र राजपाल निवासी बंधला फाटक लोनी थाना लोनी गा0बाद

क्रं0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	788/2021	411/414	लोनी

### बरामदगी का विवरण -

चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होना